

Date: 27-07-2023

The Secretary Listing Department BSE Limited

PJ Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 Script Code: 532696 The Secretary
Listing Department

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor,

Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051

Script Code: EDUCOMP

Sub: Copies Of Newspaper Advertisement For Standalone Financial Results For The Quarter And Half Year Ended On September 30, 2021.

Dear Sir / Madam,

The company has published the unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on September 30, 2021. Please find enclosed herewith copies of the Newspaper Advertisements published by the Company in the newspapers i.e. Business Standard (English Language) and Business Standard ((Hindi Regional Language) on July 27, 2023.

The above may please be treated in compliance of Regulation 47 and Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Part A of Schedule III of the said Regulations.

This is for your information and records.

Thanking You, Yours Truly,

For Educomp Solutions Limited (Under CIRP)

Mahender Khandelwal

Resolution Professional in the matter of Educomp Solutions Limited

Taken on record

IBBI Reg. No IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/ 10086

Encl: As Above

Note: As informed earlier also vide various communications, had ordered the commencement of CIRP in respect of the Company under the provisions of Code. Thereafter, in accordance with Section 17 of the Code, the powers of the Board stood suspended and Dr. Sanjeev Aggarwal was appointed as interim resolution professional of the Company. The IRP carried out his duties from May 30, 2017 till Mr. Mahender Khandelwal was appointed as Resolution Professional ("RP") vide the order of NCLT dated September 12, 2017 and took over the management of the affairs of the Company.

Educomp Solutions Limited (CIN: L74999DL1994PLC061353)

Corporate office: 514, Udyog Vihar, Phase III, Gurgaon – 122001, Haryana (INDIA). Tel.: 91-124-4529000.

Registered Office: 1211, Padma Tower I, 5, Rajendra Place, New Delhi-110008.

Web site www.educomp.com; email: investor.services@educomp.com

Personal Finance, Monday to Saturday

To book your copy, sms reachbs to **57575** or email order@bsmail.in

Business Standard Insight Out

JAMSHRI REALTY LIMITED CIN: L17111PN1907PLC000258 e: Fatehchand Damani Na Road, Solapur – 413 001.

NOTICE

OTICE is hereby given that the Meeting e Board of Directors of the Company will b eld on Friday, the 4th August ,2023, at 601-E hurchgate Mumbai 400020, at 5.00 pm (S.1 consider the Unaudited Financial Results of e Company for the 1st Quarter ended o 30th June, 2023.

Date: 25.07.2023 RAJESH DAMANI JOINT MANAGING DIRECTOR

PUBLIC NOTICE

For the kind attention of the Share holders of MAX I. LIMITED (hereinafte referred to as the "Company")

Notice is hereby given that pursuant to DNBR.(PD) 029/CGM(CDS)-2015 dated 9th July, 2015 and subsequent amendments thereto, Max I. Limited having registered office situated at 419, Bhai Mohan Singh Nagar. Village Railmaira, Tehsil Balachaur Nawanshehar, Puniab- 144533 had submitted application to the Reserve Bank of India, Department of Non- Banking Supervision, Chandigarh, seeking for prior approval for change in management of the Company and Reserve Bank of India has granted no objection vide its letter no. S105/16.31.103/2023-24 dated July 19, 2023, for change in management of the Company. Accordingly, the Board of Directors o the Company have been reconstituted and Mr. Venkatraman Krishnan has been appointed as director effective from July 19, 2023.

For Max I. Limited Nitin Kumaı Place: Noida Date: 26/07/2023

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR [M/s. NEUEON TOWERS LIMITED OPERATING IN [TOWER CONSTRUCTION] AT [PAN INDIA] (Under Regulation 36A(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

(RELEVANT PA	RTICULARS
1.	Name of the corporate debtor along with PAN/ CIN/ LLP No.	Neueon Towers Limited CIN No.L04109TG2006PLC049743
2.	Address of the registered office	Regd Off :Survey No.321, TurkalaKhanapur Village, Hatnur Mandal, Medak District, Hyderabad, Telangana Principal Off : 8-2-248/1/7/24, Second Floor, East Wing, 24 Nagarjuna Hills, Punjagutta, Hyderabad -500 082. TG.
3.	URL of website	www.sujana.com
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	UNIT -5 at Khanapur.
5.	Installed capacity of main products/ Services	Galvanising of Tower Parts :200000MT p.a Fabrication of Tower Parts :100000MT p.a Steel Re-rolling : 70000MT p.a
6.	Quantity and value of main products/ services sold in last financial year	Nil/Leased
7.	Number of employees/ workmen	Nil (Consultants 4Nos)
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at:	neuontowerirp@gmail.com
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Detailed EOI can be obtained through neuontowerirp@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	Original 05-09-2019 Now 11-08-2023
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	Original 15-09-2019 Now 15-08-2023
12.	Last date for submission of objections to provisional list	Original 20-09-2019 Now 20-08-2023

(Sd) Dr.CA MADURAI SUNDRAM SANKAR Signature of the Resolution Professional: IBBI/IPA-001/IP-P00770/2017-2018/1131 Registered Address of the Resolution Professional: A1206, S&S SARVAN 200 FEET PALLAVARAM THURAIPAKKAM RADIAL ROAD, PALLIKARANAI, CHENNAI 6001 For Neueon Towers Limite 26-07-2023 and CHENNA

13. Process email id to submit EO

neuontowerirp@gmail.com

Educomp EDUCOMP SOLUTIONS LIMITED

CIN: L74999DL1994PLC061353

Read. Office: 1211. Padma Tower I-5. Raiendra Place. New Delhi 110008 E-mail: investor.services@educomp.com. Website: www.educomp.com

	(R						
SI.	Particulars	Quarter Ended			Half Yea	Year Ended	
No.	Particulars	30/09/2021 (Unaudited)	30/06/2021 (Unaudited)	30/09/2020 (Unaudited)	30/09/2021 (Unaudited)	30/09/2020 (Unaudited)	31/03/2021 (Audited)
1.	Total Income from operations (net)	19.95	2.10	39.11	22.05	67.57	96.56
2.	Net Profit/(Loss) for the period before tax, exceptional items and extraordinary item	(168.07)	(1,471.40)	(422.21)	(1,639.47)	(2,289.97)	(5,059.79)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax but after exceptional items and extraordinary item	(168.07)	(1,471.40)	(422.21)	(1,639.47)	(2,289.97)	(5,059.79)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax, exceptional items and extraordinary item	(168.07)	(1,471.40)	(422.21)	(1,639.47)	(2,289.97)	(5,059.79)
5.	Total Comprehensive income	(168.07)	(1,471.40)	(422.21)	(1,639.47)	(2,289.97)	(5,063.83
6.	Paid up Equity share capital (Face Value Rs.2/- each)	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34
7.	Reserve excluding revaluation reserves						(2,98,018.58
8.	Securities Premium Account	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24
9.	Net worth	(2,91,964.23)	(2,91,796.16)	(2,88,760.27)	(2,91,964.23)	(2,88,760.27)	(2,90,324.77
10.	Paid up Debt Capital/outstanding debt	2,56,722.96	2,56,726.30	2,55,780.41	2,56,722.96	2,55,780.41	2,55,648.75
11.	Outstanding Redeemable Preferences Shares	-	-	-	-	-	
12.	Debt Equity Ratio	(0.88)		(0.89)	(0.88)	(0.89)	(0.88
13.	(Loss)/ Earning Per Share (before and after extraordinary items) (not annualized)						
	(a) Basic	(0.14)	(1.20)	(0.34)	(1.34)	(1.87)	(4.13
	(b) Diluted	(0.14)	(1.20)	(0.34)	(1.34)	(1.87)	(4.13
14.	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-	-	
15.	Debenture Redemption Reserve	-	-	-	-	-	
16.	Debt Service Coverage Ratio	(6.25)		(9.96)	(6.25)	(9.96)	(11.34
17.	Interest Service Coverage Ratio	(6.34)		(10.33)	(6.34)	(10.33)	(11.58

ATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDER SEPTEMBER 30, 2021

Place: New Delhi

Date : 26/07/2023

The above results is an extracts of the detailed format of Unaudited Financials Results for the quarter and half year ended 30th September, 2021 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regularements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and half year financial results is available on the Stock Exchange Website namely, BSE Limited, (www.bseindia.com) National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the Company's Website (www.educomp.com)

For Educomp Solutions Limited (Under CIRP)

MAHENDER KHANDELWAL TAKEN ON RECORD RESOLUTION PROFESSIONAL OF EDUCOMP SOLUTIONS LIMITED REGISTRATION NUMBER:-IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/10086



Regd Office: P-104 Taratala Road, Kolkata - 700088 CIN No.: L26933WB1991PLC052968 Phone: (033) 6109 0600 Fax: (033) 2401 3976

Vesuvius India Limited

Email: vesuviusindia@vesuvius.com Website: www.vesuviusindia.in

	(₹ in lakhs except EPS o						
			Q	uarter Ended			Financial
SI. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2023	Quarter ended March 31, 2023	Quarter ended June 30, 2022	Year to Date June 30, 2023	Year to Date June 30, 2022	year ended December 31, 2022
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1)	Total Income from operations	41,343	37,860	33,454	79,203	65,157	1,36,544
2)	Net Profit for the period/year	7,002	5,810	3,931	12,812	7,101	15,686
	(before tax and exceptional items)						
3)	Net Profit for the period/year (before tax)	7,002	5,810	3,931	12,812	7,101	15,686
	(after exceptional items)						
4)	Net Profit for the period/year after tax	5,224	4,335	2,943	9,559	5,306	11,679
	(after exceptional items)						
5)	Total Comprehensive Income for the period / year	5,157	4,358	3,048	9,515	5,383	11,773
	[comprising Profit for the period / year (after tax)						
	and Other Comprehensive Income (after tax)]						
6)	Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/each)	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030
7)	Reserves (excluding Revaluation Reserve)						97,749
	as shown in the Audited Balance Sheet of the						
	previous year						
8)	Earnings per share (of ₹ 10/each)						
	[*not annualised for quarterly figures]:						
	a) Basic (₹)	25.73*	21.35*	14.50*	47.10*	26.14*	57.54
	b) Diluted (₹)	25.73*	21.35*	14.50*	47.10*	26.14*	57.54

Place: Kolkata

Date: July 26, 2023

The Company is engaged in the business of manufacturing, trading and sale of a range of refractories and is having its manufacturing facilities located in India. The performance of the Company is assessed and reviewed by the Chief Operating Decision Maker ('CODM') as a single operating segment and accordingly manufacture and sale of refractories is the only operating segment.

These unaudited financial results have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company who have expressed an

- unqualified/unmodified conclusion on these results. 3) These unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on July 26,
- In continuation of the cyber security incident reported by the Company on February 6, 2023, and subsequently on May 15, 2023, we report that the

Company has assessed the said incident assisted by leading cyber security experts. Based on the findings of the cyber security experts, we conclude that all our systems across various functions are working normally, with no assessed impact on the financial performance of the Company for the quarter ended June 30, 2023. Our review of data affected by the incident remains ongoing with no material breaches or loss of data or documents having beer reported till date

> On behalf of the Board of Directors Vesuvius India Limited **Managing Director**



Extract of unaudited financial results of Dr. Reddy's Laboratories Limited and its subsidiaries for the quarter ended 30 June 2023 prepared in compliance with Indian Accounting Standards

ΑII	amounts	in I	Indian	Rupees	mil

			Cons	olidated	
SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total Revenue from operations	67,579	63,152	52,329	246,697
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	18,500	13,291	14,680	60,485
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	18,500	13,291	14,680	60,485
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	14,050	9,601	11,890	45,073
5	Total Comprehensive Income for the period	14,093	10,526	9,761	44,952
6	Equity Share Capital	833	833	832	833
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				232,028
8	Earnings per share (in Rupees) per Rs. 5/- share				
	Basic	84.55	57.79	71.64	271.47
	Diluted	84.36	57.68	71.49	270.90

		Standalone							
SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)				
1	Total Revenue from operations	54,373	45,540	36,306	169,625				
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	22,196	9,366	7,516	38,660				
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	22,196	9,366	7,516	38,660				
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	16,394	6,724	4,995	26,128				
5	Total Comprehensive Income for the period	16,786	7,799	2,076	25,594				
6	Equity Share Capital	833	833	832	833				
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				203,909				
8	Earnings per share (in Rupees) per Rs. 5/- share								
	Basic	98.66	40.49	30.10	157.37				
	Diluted	98.45	40.41	30.03	157.03				
Note	Note:								

- 1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges website: www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website: www.drreddys.com
- The Unaudited results were reviewed by the Audit Committee of the Board and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 26 July 2023

By order of the Board For Dr. Reddy's Laboratories Limited

Place : Hyderabad 26 July 2023

G V Prasad Co-Chairman & Managing Direcor

Dr. REDDY'S LABORATORIES LIMITED

Regd. Office: 8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034, Telangana, India CIN: L85195TG1984PLC004507, Tel: 91 40 4900 2900, Fax: 91 40 4900 2999 email: shares@drreddys.com, website: www.drreddys.com



BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED

CIN - L15421WB1975PLC030118

Registered Office: "FMC Fortuna", 2nd Floor, 234/3A, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700 020 Phone: 033-22874749, Fax: 033-22873083

Email: secretarial@bcml.in, Website: www.chini.com

NOTICE OF THE 47TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 47th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED ("the Company") will be held on Saturday, the 19th Day of August, 2023 at 3:30 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the businesses as set forth in the Notice convening the said AGM ("the Notice").

The AGM will be convened in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules thereunder; provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"); read with General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020, the latest being 10/2022 dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 ("Circulars").

In compliance with the above mentioned provisions, the Notice of the 47th AGM and the Integrated Annual Report for the Financial Year 2022-23 have been emailed to all the Members whose email IDs are registered with the Company / KFin Technologies Limited (KFin/RTA) / Depository Participant(s). The Notice of the AGM and the Integrated Annual Report are available on the Company's website at www.chini.com as well as on KFin's website https://evoting.kfintech.com/ and on the website of the stock exchange(s) i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to KFin at: einward.ris@kfintech.com or to the Company at secretarial@bcml.in along with the copy of the signed request letter mentioning the name, folio no / demat account no. and address of the Member, Form ISR 1 (available in the website of the Company), self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any document (such as Aadhaar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport, etc.) as proof of address of the Member.

Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their email addresses with the relevant Depository Participants.

Members are requested to complete the registration process before 5:00 P.M. (IST) on Saturday, 12th August, 2023.

The Company is pleased to provide its Members facility of remote e-voting and e-voting during the AGM through electronic voting services provided by KFin. In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2O2O/242 dated 9th December, 2020, e-voting process will also be enabled for all "individual demat account holders", by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depository Participant(s). The process and manner for remote evoting and voting at the AGM is provided in the Notice of the AGM and also made available on the Company's website www.chini.com. Members attending the AGM through VC / OAVM and not having cast their vote through remote e-voting on the resolutions set forth in the Notice, shall be eligible to vote through e-voting facility provided during the AGM. Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM can attend the AGM but shall not be entitled to

The cut-off date for determining the eligibility of Members for voting through remote e-voting and e-voting at the AGM, is Saturday, 12th August, 2023.

All documents referred to in the Notice and the Explanatory Statement shall be made available electronically for inspection by the Members of the Company, without payment of fees upto and including the date of AGM. Members seeking inspection of the aforementioned documents can send an email to secretarial@bcml.in with the subject line "Balrampur Chini Mills Limited - 47th AGM" from their registered e-mail addresses mentioning their names and folio numbers / demat account numbers.

The remote e-voting period commences on Wednesday, 16th August, 2023 (10:00 A.M. IST) and ends on 18th August, 2023 (5:00 P.M. IST) . The remote e-voting module will be disabled by KFin thereafter. Once the vote is cast by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Saturday, 12th August, 2023, can obtain Login ID and Password by sending a request at evoting@kfintech.com. However, if a person is already registered with KFin for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

In case of any query and/or help, in respect of attending the AGM through VC/OAVM mode, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and 'AGM VC/OAVM' user manual available at the download Section of https://evoting.kfintech.com/or contact Mr. Shaibal Haripada Roy, Deputy Vice President - Corporate Registry or Mr. Balaji Reddy, Senior Manager - Corporate Registry of KFin Technologies Limited at the email ID at evoting@kfintech.com and KFin's toll free no.: 1800-309-4001 for any further clarifications/ technical assistance that may be required.

NOTICE is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Sunday, 13th August, 2023 to Saturday, 19th August, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

By order of the Board For Balrampur Chini Mills Limited

Manoj Agarwal **Company Secretary & Compliance Officer** Membership No.: A18009

Nitin Jain Place: Kolkata Date: 26th July 2023 (DIN: 07934566)









Educomp■

एड्यूकॉम्प सॉल्यूशन्स लिमिटेड

CIN: L74999DL1994PLC061353

पंजी. कार्यालय : 1211, पद्मा टावर,—I-5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली—110008 ई—मेल: investor.services@educomp.com, वेबसाइट: www.educomp.com

	30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों का विवरण								
							(रूपए लाख में)		
क्र.	विवरण		तिमाही समाप्त		अर्द्ध वष	सिमाप्त	वर्ष समाप्त		
₹і.	14401	30/09/2021 (अलेखापरीक्षित)	30/06/2021 (अलेखापरीक्षित)	30/09/2020 (अलेखापरीक्षित)	30/09/2021 (अलेखापरीक्षित)	30/09/2020 (अलेखापरीक्षित)	31/03/2021 (लेखापरीक्षित)		
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	19.95	2.10	39.11	22.05	67.57	96.56		
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर, अपवाद मदों तथा असाधारण मदों से पूर्व	(168.07)	(1,471.40)	(422.21)	(1,639.47)	(2,289.97)	(5,059.79)		
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाम / (हानि) कर से पूर्व किंतु अपवाद मदों तथा असाधारण मदों के पश्चात	(168.07)	(1,471.40)	(422.21)	(1,639.47)	(2,289.97)	(5,059.79)		
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाम / (हानि) कर, अपवाद मदों तथा असाधारण मदों के पश्चात	(168.07)	(1,471.40)	(422.21)	(1,639.47)	(2,289.97)	(5,059.79)		
5.	कुल व्यापक आय	(168.07)	(1,471.40)	(422.21)	(1,639.47)	(2,289.97)	(5,063.83)		
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 2/— प्रत्येक)	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34		
7.	संचेय पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर						(2,98,018.58)		
8.	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24		
9.	शुद्ध मूल्य	(2,91,964.23)	(2,91,796.16)	(2,88,760.27)	(2,91,964.23)	(2,88,760.27)	(2,90,324.77)		
10.	प्रदत्त ऋण पूंजी/बकाया ऋण	2,56,722.96	2,56,726.30	2,55,780.41	2,56,722.96	2,55,780.41	2,55,648.75		
11.	बकाया पुनर्मोच्य अधिमान शेयर	-	-	-	-	-	-		
12.	ऋण इक्विटी अनुपात	(0.88)		(0.89)	(0.88)	(0.89)	(0.88)		
13.	प्रति शेयर (हानि)/अर्जन (असाधारण मदों से पूर्व और पश्चात) (अ–वार्षिककृत)								
	(क) मूल	(0.14)	(1.20)	(0.34)	(1.34)	(1.87)	(4.13)		
	(ख) तनुकृत	(0.14)	(1.20)	(0.34)	(1.34)	(1.87)	(4.13)		
14.	पूंजी पुनर्मोचन संचेय	-	-	-	-	-	-		
15.	ऋणपत्र पुनर्मोचन संचेय	-	-	-	-	-	-		
16.	ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात	(6.25)		(9.96)	(6.25)	(9.96)	(11.34)		
17.	ब्याज सेवा व्याप्ति अनुपात	(6.34)		(10.33)	(6.34)	(10.33)	(11.58)		

उपरोक्त परिणाम सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारिकत रूप है। तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज वेबसाइट नामतः, बीएसई लिमिटेड, (www.bseindia.com) नैशनल स्टॉक एक्सचेन्ज वेंबसाइट नामतः, बीएसई लिमिटेड, (www.bseindia.com) नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.educomp.com) पर उपलब्ध है।

कृते **एड्यूकॉम्प सॉल्यूशन्स लिमिटेड** (सीआईआरपी के अधीन) हस्ता./-

महेन्द्र खंडेलवाल समाधान प्रोफेशनल रेकार्डबद्ध किया गया IBBI Reg. No IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/10086

CAPITAL

स्थान : नई दिल्ली

तिथि: 26/07/2023

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात–362266 **शाखा कार्यालयः** प्रथम तल, विजया बैंक बिल्डिंग, प्लॉट नं. 17, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली–110001

मांग सूचना धारा 13(2) के तहत

आप अधोल्लिखित कर्जदार ने अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति के बंधन द्वारा ऋण प्राप्त किया है और आप अधोल्लिखित ऋण करार के लिए कर्जदार/सह-कर्जदार जमानती बने हैं। आपके द्वारा की गई चूकों के फलस्वरूप वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में सरफासी अधिनियम) के तहत आपका ऋण खाता एनपीए वर्गीकृत किया गया है। हम आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ने आपके द्वारा दिए गए पते पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 यथासंशोधित के साथ पठित धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की थी। उक्त सूचनाओं की विषय—वस्तु है कि आपको प्रदान विविध ऋणों के भुगतान में आपने चूक की है। इसलिए, सरफासी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधान और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधानों के अनुसार यह प्रकाशन सूचना देने के लिए किया गया है:

प्रावधान और प्रातनात हित (प्रवतन) नियमावला, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधाना के अ	पुरारि यह प्रकाशन र	रूपना दन क ा	१९ किया गया हः
ऋण खाता सं./खाता, कर्जदार(ऑ) और जमानती(ऑ) के नाम और पते	प्रवर्तन की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण	मांग सूचना / एनपीए की तारीख	मांग सूचना के अनुसार देय राशि
खता - संपत्ति के विरुद्ध ऋण ऋण खाता सं. ABFLND_LAP0000044368 और ABFLND_LAP0000100209 1. मेसर्स तोशिबा किपार्टमेंटल स्टोर, अपने प्रॉपराईटर के माध्यम से, सी-304, मेन रोड, मुल्ला कालोनी, घरौली, ईस्ट दिल्ली—110096 अन्य पताः फ्लैट नं. 2—ए, भूतल, पॉकंट—ए,—1, मयूर विहार, फेज III, नई दिल्ली—110096 अन्य पताः डीडीए फ्लैट नं. 2, पॉकंट—ए, कॉडली घरौली, नई दिल्ली—110096 2. मोहम्मद फरमान, सी-304, मेन रोड, मुल्ला कालोनी, घरौली, ईस्ट दिल्ली—110096, अन्य पताः फ्लैट नं. 2—ए, भूतल, पॉकंट—ए—1, मयूर विहार, फेज III, नई दिल्ली—110096 अन्य पताः फ्लैट नं. 2—ए, भूतल, पॉकंट—ए—1, मयूर विहार, फेज III, नई दिल्ली—110096 अन्य पताः फ्लैट नं. 2—ए, भूतल, पॉकंट—ए—1, मयूर विहार, फेज III, नई दिल्ली—110096 4. श्रीमती परवीन सुल्ला कालोनी, घरौली, ईस्ट दिल्ली—110096, अन्य पताः फ्लैट नं. 2—ए, भूतल, पॉकंट—ए—1, मयूर विहार, फेज III, नई दिल्ली—110096	निम्न संपत्ति के सभी भाग व खंडः ''फ्लैट नं. 2-ए, भूतल, पॉकंट-ए-1, मयूर विहार, फेज III, नई दिल्ली– 110096"	18.07.2023 एनपीए 14.07.2023	रू. 45.50,916 / – (रुपये पैंतालीस लाख पचास हजार नी सौ सोलह मात्र) अर्थात रू. 40,63,364 / – ऋण खाता सं. ABFLND_LAP0000044368 के लिए और रू. 4,87,552 / – ऋण खाता सं. ABFLND_LAP0000100209 के लिए कगाया मूलधन, ककाया (प्रोद्भूत विलंब प्रभारों सहित) और
जत्पाद — संपत्ति के विरुद्ध ऋण ऋण खाता सं. ABND_LAP000000530036 1. मेसर्स मायरा पैकेंजिंग, अपने प्रॉपराईटर के माध्यम सं. जी—184, सेक्टर-63, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301, अन्य पता: प्लॉट नं. 8, ब्लॉक बी, सेक्टर-60, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 2. श्रीमती बबीता राना, मकान नं. 36, गाँव चीरा, सेक्टर-22, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता: प्लॉट नं. 8, ब्लॉक बी, सेक्टर-60, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 3. श्री देवेन्दर सिंह राना, मकान नं. 36, गाँव चीरा, सेक्टर-22, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता: प्लॉट नं. 8, ब्लॉक बी, सेक्टर-60, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 4. श्री वैभव राना, मकान नं. 36, गाँव चीरा, सेक्टर-22, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201301 अन्य पता: प्लॉट नं. 8, ब्लॉक बी, सेक्टर-60, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301	निम्न संपत्ति के सभी भाग व खंडः "प्लॉट नं. 8, ब्लॉक बी, संक्टर—60, नोएडा, उत्तर प्रदेश— 201301"	18.07.2023 एਜਧੀए 14.07.2023	रु. 2,35,00,992 /— (रुपये दो करोड़ पँतीस लाख नौ सौ बानवे मात्र) बकाया मूलधन, बकाया (प्रोद्भूत विलंब प्रभारों सहित) और 15.07.23 तक ब्याज

आपको उपरोक्त राशि वाज वाज ताज सहित **आदित्य विरला फाइनेंस लिमिटेड** को उक्त मांग सूचना की तारीख से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा **आदित्य विरला फाइनेंस लिमिटेड** उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर्जदारों, बंधककर्ताओं और जमानतियों की प्रत्याभूत परिसंपित्तियों का कब्जा लेने सहित सभी या किसी और अधिक प्रत्याभृत परिसंपित्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेगा। उक्त अधिनियम के तहत **आदित्य विरला फाइनेंस लिमिटेड** के पास उपलब्ध शक्तियों में शामिल है (1) प्रत्याभृत परिसंपित्तियों को मुक्त करने के लिए पट्टे, बिक्री के असाइनमेंट द्वारा इस्तांतरण के अधिकारों सहित कर्जदारों / जमानतियों की प्रत्याभृत परिसंपित्तियों का कब्जा लेने की शक्ति (2) पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री द्वारा इस्तांतरण सिक्त प्रत्याभृत परिसंपित्तियों का कब्जा लेने की शक्ति (2) पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री द्वारा इस्तांतरण सिक्त प्रत्याभृत परिसंपित्तियों को वसूली और आदित्य विरला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा प्रत्याभृत परिसंपित्तियों का कोई भी हस्तांतरण सभी अधिकारों से और प्रत्याभृत इस्तांतरित परिसंपित्तियों के संबंध से उसी प्रकार से अधिकृत होगा जैसे हस्तांतरण आपके द्वारा

किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के अनुसार आप एतद्वारा उपरोक्त कोई और **आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड** को रेहन/बंधक प्रत्याभूत परिसंपत्ति को **आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड** की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टेया अन्य (व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया को छोड़कर) किसी तरीके

स्थानः दिल्ली और नोएडा दिनांकः 27.07.2023 प्राधिकृ

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, **आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड**



एड्यूकॉम्प सॉल्यूशन्स लिमिटेड

CIN: L74999DL1994PLC061353

पंजी. कार्यालय : 1211, पद्मा टावर,—1-5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली—110008 ई—मेल: investor.services@educomp.com, वेबसाइट: www.educomp.com

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों का विवरण ,								
						(रूपए लाख में		
क्र.	विवरण		तिमाही समाप्त			वर्ष समाप्त		
₹і.		31/03/2022	31/12/2021	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2021		
		, ,	, ,	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)		
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	73.11	42.98	11.76	138.14	96.56		
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर, अपवाद मदों तथा असाधारण मदों से पूर्व	(2,151.60)	(562.55)	(2,071.50)	(4,353.62)	(5,059.79)		
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर से पूर्व किंतु अपवाद मदों तथा असाधारण मदों के पश्चात	(2,151.60)	(562.55)	(2,071.50)	(4,353.62)	(5,059.79)		
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर, अपवाद मदों तथा असाधारण मदों के पश्चात	(2,151.60)	(562.55)	(2,071.50)	(4,353.62)	(5,059.79)		
5.	कुल व्यापक आय	(2,153.13)	(562.55)	(2,075.54)	(4,355.15)	(5,063.83)		
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 2/– प्रत्येक)	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34		
7.	संचेय पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर				(3,02,373.73)	(2,98,018.58)		
8.	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24		
9.	शुद्ध मूल्य	(2,94,679.92)	(2,92,526.78)	(2,90,324.77)	(2,94,679.92)	(2,90,324.77)		
10.	प्रदत्त ऋण पूंजी/बकाया ऋण	2,58,373.24	2,57,094.57	2,55,648.75	2,58,373.24	2,55,648.75		
11.	बकाया पुनर्मोच्य अधिमान शेयर	-	-	-	-	-		
12.	ऋण इक्विटी अनुपात	(0.88)		(0.88)	(0.88)	(0.88)		
13.	प्रति शेयर (हानि)/अर्जन (असाधारण मदों से पूर्व और पश्चात) (अ—वार्षिककृत)							
	(क) मूल	(1.76)	(0.46)	(1.69)	(3.55)	(4.13)		
	(ख) तनुकृत	(1.76)	(0.46)	(1.69)	(3.55)	(4.13)		
14.	पूंजी पुनर्मोचन संचेय	-	-	-	-	-		
15.	ऋणपत्र पुनर्मोचन संचेय	-	-	-	-	-		
16.	9	(8.62)		(11.34)	(8.62)	(11.34)		
17.	ब्याज सेवा व्याप्ति अनुपात	(8.71)		(11.58)	(8.71)	(11.58)		

नाट : उपरोक्त परिणाम सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारकित रूप है। तिमाही और वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज वेबसाइट नामतः, बीएसई लिमिटेड, (www.bseindia.com) नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.educomp.com) पर उपलब्ध है।

कृते **एड्यूकॉम्प सॉल्यूशन्स लिमिटेड** (सीआईआरपी के अधीन) हस्ता./— **महेन्द्र खंडेलवाल** समाधान प्रोफेशनल स्थान : नई दिल्ली

IBBI Reg. No IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/10086



तिथि : 26/07/2023

एड्यूकॉम्प सॉल्यूशन्स लिमिटेड CIN: L74999DL1994PLC061353

पंजी. कार्यालय : 1211, पदमा टावर.—I-5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली—110008 ई—मेल: investor.services@educomp.com, वेबसाइट: www.educomp.com

					(रूपए लाख मे
क्र.	विवरण		तिमाही समाप्त		वर्ष समाप्त
सं.	144(-1	30/06/2021 (अलेखापरीक्षित)	31/03/2021 (अलेखापरीक्षित)	30/06/2020 (अलेखापरीक्षित)	31/03/2021 (लेखापरीक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	2.10	11.76	28.46	96.5
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर, अपवाद मदों तथा असाधारण मदों से पूर्व	(1,471.40)	(2,071.50)	(1,867.76)	(5,059.79
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर से पूर्व किंतु अपवाद मदों तथा असाधारण मदों के बाद	(1,471.40)	(2,071.50)	(1,867.76)	(5,059.79
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर, अपवाद मदों तथा असाधारण मदों के पश्चात	(1,471.40)	(2,071.50)	(1,867.76)	(5,059.79
5.	कुल व्यापक आय	(1,471.40)	(2,075.54)	(1,867.76)	(5,063.83
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 2/– प्रत्येक)	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.3
7.	संचेय पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर				(2,98,018.58
8.	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.2
9.	शुद्ध मूल्य	(2,91,796.16)	(2,90,324.77)	(2,90,644.67)	(2,90,324.7)
10.	प्रदत्त ऋण पूंजी/बकाया ऋण	2,56,726.30	2,55,648.75	2,57,320.67	2,55,648.7
11.	बकाया पुनर्मोच्य अधिमान शेयर	-	-	-	
12. 13.	ऋण इक्विटी अनुपात प्रति शेयर (हानि)/अर्जन (असाधारण मदों से पूर्व और पश्चात) (अ—वार्षिककृत)		(0.88)		(0.88
	(क) मूल	(1.20)	(1.69)	(1.53)	(4.13
	(ख) तनुकृत	(1.20)	(1.69)	(1.53)	
14.		\ \ \ -	` -		,
15.	ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात	-	-	-	
16.	ब्याज सेवा व्याप्ति अनुपात		(11.34)		(11.34
17.	ब्याज सेवा व्याप्ति अनुपात	1	(11.58)		(11.58

जार : उपरोक्त परिणाम सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारिकत रूप है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज वेबसाइट नामतः, बीएसई लिमिटेड, (www.bseindia.com) नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) तथा कम्पनी की



Business
Standard
newspaper
delivering
safely to homes
and offices

For details,
SMS reachbs
to 57575
or email
order@bsmail.in

Business Standard
Insight Out

f bsindia business-standard.com

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक

<u>पंजीकृत कार्यालय:</u> द फेयरवे, भूतल और प्रथम तल, सर्वे सं. 10/1, 11/2 और 2/28, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के पास, चल्लाघट्टा, |वेंगलोर-560071

(एक अनुसूचित व्यावसायिक बैंक) बेंगत प्रावेशिक शाखा कार्यालय : 16/12 दूसरा तल, डब्द

<u>प्रादेशिक शाखा कार्यालय</u> : 16/12 दूसरा तल, ब्र्ल्यू,ई.ए., आर्या समाज रोड़, करोल बाग, दिल्ली—110005 सारफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

जबिक आप नीचे उल्लेखित उधारकर्ता, सह—उधारकर्ता, गारंटर औं बंधककर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को बंधक रखकर **जना रमॉल फाइनेंस बँक लिमिटेड** से ऋण लिया है। आप सभी द्वारा किए गए चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को **गैर–निष्पादित परिसंपत्ति** के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबिक **जना रमॉल फाइनेंस बँक लिमिटेड** अधिनियम के तहत एक प्रत्याभूत ऋणवाता होने के नाते, और उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 2 के तहत प्रवत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, **मांग सूचना** जारी कर कॉलम नंबर 2 में उल्लेखित उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं को सूचना की दिनांक से **60 दिनों** के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ सूचना में उल्लेखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को सूचना नहीं पहुंच सकी।

q:	ग सूचना नहा पहुंच सका।				
ब्र र	त्र. उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता तं. /गारंटर/बंधककर्ता का नाम	ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	प्रवर्तित होने वाली प्रतिभूति का विवरण	एनपीए की दिनांक और मांग सूचना दिनांक	बकाया राशि रुपये में / तक
1	(1) मैसर्स एस ऑटोमोबाइल्स अपने मालिक श्री आमीर चौधरी द्वारा प्रतिनिधित्व (2) श्री आमीर चौधरी (उधारकर्ता), (3) श्री इकबाल अहमद (गारंटर), (4) मोहम्मद यूसूफ (गारंटर)	46099660000011 ऋण राशि : रु. 65,00,000/-	प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का विवरण—भाग—''अ'' — दृष्टिबंधक अचल परिसंपत्तियां : सभी कच्चे माल और खाते की पुस्तकों में स्टॉक पर और प्राप्तियों पर और कंपनी के व्यापार परिसरों के ऋण बुक यानी, मैसर्स एस ऑटोमोबाइल्स, खसरा सं. 3540, पसोंदा के पास, सैहिबाबाद, राजेंद्र नगर के पास, गाजियाबाद—201005 भाग—''व'' — बंधक अचल संपत्ति : अनुसूची संपत्ति : संपत्ति विवरण: श्री इकबाल और श्री यूसूफ, पुत्र श्री निजामजदीन के स्वामित्व का मापक क्षेत्र 138 वर्ग गज खसरा सं. 622 मीन, और मापक क्षेत्र 88 वर्ग गज खसरा सं. 624 मीन, यानी कुल मापक क्षेत्र 226 वर्ग गज, स्थित ग्राम पसोंदा, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, सीमांकन प्रकार : पूर्व : अन्य भूमि, पश्चिम : 12 फुट रास्ता , उत्तर : अन्य भूमि , विक्षण : आम	एनपीए की दिनांक 01.06.2023 मांग सूचना दिनांक 25.07.2023	रू. 64,27,146/— (रुपये चौंसठ लाख सत्ताईस हजार एक सौ छियालीस मात्र) दिनांक : 24.07.2023 तक

इसलिए जैसा कि कॉलम नंबर 2 में उल्लेख किया गया है, उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता/गारंटर और बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि उन्हें इस सूचना के प्रकाशन के **60 दिनों** के भीतर सभी संबंधित उधारकर्ता/ सह—उधारकर्ता/ सह—उधारकर्ता/ गारंटर और बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि उन्हें इस सूचना के प्रकाशन के **60 दिनों** के भीतर सभी संबंधित उधारकर्ता के स्वंध में कॉलम नंबर 6 में वर्णित दिनांक के अनुसार देय पाई जाती है। यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कुल राशि मोब्ध्य के ब्याज और अन्य राशियों के साथ जो भुगतान की दिनांक तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ज**ना स्मॉल फाइनेंस बेंक लिमिटेड** को कॉलम संख्या 4 में वर्णित संपत्तियों पर प्रत्याभृत ब्याज को प्रवर्तीत करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए विवश किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों और उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया जाता है जैसा कि कानून के तहत उक्त वित्तीयों के उधारकर्ता/ सह—उधारकर्ता/ गारंटर/ बंधककर्ताओं के विरुद्ध तम्म स्मॉल **फाइनेंस बेंक लिमिटेड** को उपलब्ध है, आपसे यह भी अनुरोधि किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको उपर्युक्त प्रतिभूति के निपटान या उससे निपटने या प्रत्याभूत ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना प्रत्याभूत परिसंपत्ति के बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने से रोका/ निषद्ध किया जाता है।

दिनांक : 27.07.2023, स्थान : दिल्ली एनसीआर

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, प्रति जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड



Insignt Out
To book your copy call 022 4027 5432 or SMS reachbs to 57575 or email us at order@bsmail.in

To book your copy, call **022 4027 5432** or SMS **reachbs** to **57575** or email us at **order@bsmail.in**Substitution www.business-standard.com